



**Norms for admission in Sports quota in various courses in affiliated colleges to the CCS
University, Meerut during the session 2026-27**

The admissions of the outstanding Sports person will be held as follows:-

1. Maximum 5% Sports Quota उन सभी विषयों में जिनके प्रवेश सीधे वरीयता सूचि से होते हैं, अतः यह उन विषयों पर लागू नहीं होगा जिनमें प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होते हैं।
2. नियमानुसार 80 सीट पर विभिन्न वर्गों में आरक्षण 2+1+1 के आधार पर होगा, यदि किसी श्रेणी में कोई अभ्यर्थी वरीयता सूचि में नहीं आता है, तो नियमानुसार उस श्रेणी के सीट ओपन कर दी जायेगी।
3. खेल कोटा के प्रवेश खिलाड़ियों की पूर्व प्रमाण पत्र जो क्वालिफाईंग कक्षा में अथवा तीन साल (30 जून 2023) से पुराने न हो, शारीरिक दक्षता व खेल प्रदर्शन प्रतिभा के आधार पर बनाई गई वरीयता सूचि के आधार पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस आशय हेतु गठित समिति द्वारा किए जायेंगे, परन्तु शारीरिक दक्षता उन खेलों जैसे शतरंज आदि पर लागू नहीं होगी, जिनमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का प्रवेश सीधे बिना टेस्ट के दिया जायेगा।
4. खेल कोटा से प्रवेश केवल उन्ही खेलों में किए जायेंगे, जो खेल, विश्वविद्यालय खेल कलेन्डर में सम्मिलित हैं।
5. The eligibility for Sports quota admission, the candidate's sports participation must be SGFI Games/ CBSE Cluster/state level for UG Courses and Inter University/National level for PG courses in the Games/Sports recognized by the AIU.
6. The only candidates who have already been registered online for Sports quota admission shall be considered for admission.
7. The candidates are eligible for the participation in intercollegiate tournaments and Inter University tournaments must between 17-25 years of age.
8. A candidate after seeking admission through Sports quota is expected to participate from his/her college in Intercollegiate..
9. All the candidates will appear in the Games/Sports trials conducted by the University Sports Committee except the sportspersons who have participated/represented the country in the following competitions –
 - a) Olympic Games by International Olympic Committee.
 - b) World Championships under International Sports federations (IOA and/or MYAS recognized/affiliated Games)
 - c) Asian Games by Olympic Council of Asia
 - d) Asian Championships under International Sports federations (IOA and/or MYAS recognized/affiliated Games)
 - e) Commonwealth Games, S.A.F Games and Afro-Asian Games (IOA and /or MYAS recognized/affiliated Games)
10. The Committee will recommend names of the qualified candidates on the basis of their playing ability and skill, in order of their merit for approval of the University authorities.
11. After approval of the candidates will take the admission in the concerned colleges within the stipulated period as notified by the University.


(Prof. Dinesh Kumar)
Prof. Incharge PE & Sports
& Coordinator PFT


(Prof. Rakesh Sharma)
Dean, Faculty of Education
& Coordinator PFT

Schedule for the trials for the admission in UG & PG courses Under Sports quota of affiliated colleges of CCS University, Meerut

S. No.	Games/Sports	Date	Reporting Time
1	Physical Fitness Test + Football (M), Hockey (M&W), Cricket (M&W), Kabaddi (M&W), Circle Kabaddi (M&W), Kho-Kho (M&W), Volleyball (M&W), Table Tennis (M&W), & L. Tennis (M&W)	05-09-2026	8:00 to 11:00 AM
2	Physical Fitness Test + Handball (M&W), Basketball (M&W), Badminton (M&W), & Baseball (M&W), Softball (M&W), Archery (M&W), & Air Rifle-- Air Pistol Shooting (M&W), Swimming- Diving-(M&W)- & WP (M), Wushu (M&W), Tug of war (M&W), Karate (M&W), Netball (M&W) & Yoga (M&W)	06-09-2026	8:00 to 11:00 AM
3	Physical Fitness Test + Athletics (M&W), Judo (M&W), Boxing (M&W), Taekwondo (M&W), Wt. Lift., P. Lift. (M&W) & Best Physique (M), Wrestling (M&W), Greco Roman Wrestling (M&W), Gymnastics (M&W), Chess, Cross Country (M&W).	07-09-2026	8:00 to 11:00 AM
4	All Left over	08-09-2026	8:00 to 11:00 AM

Venue- University Sports Complex

नोट:-

- Physical Fitness test items and minimum qualifying standard for all the candidates.
 - 50 Meter Run-----8.00 sec for Men and 9.00 sec for Women
 - Standing Broad Jump-----1.65 Meter for Men and 1.15 Meter for Women
 - 1000 Meter Run-----5.00 Min for Men and 6.00 Min for Women
- सभी खिलाड़ी ट्रायल हेतु अपनी प्लेयिंग किट व खेल उपकरण अपने साथ लायेंगे।
- अपने खेल की ट्रायल की तिथि व समय का विशेष ध्यान रखेंगे।
- सभी खिलाड़ी डॉक्टर का फिटनेस प्रमाण पत्र साथ लायेंगे।
- सभी खिलाड़ी अपने ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रति एवं 02 पासपोर्ट फोटो साथ लायेंगे।
- सभी खिलाड़ी अपने खेल प्रमाण पत्र की मूल व प्रमाणित छायाप्रति दो प्रतियों में साथ लायेंगे।

SCORING:-

- Physical Fitness only qualifying. The candidate must qualify in two events out of three.
- Three judges rating scale will be employed to evaluate the Games/Sports efficiency. Top and bottom score will be cancelled and middle score will be final score of the candidate.

S. No.	Skill/ Technique 40 Marks	Playing ability /performance 40 Marks	Viva/Interview Marks 10
1	Both Individual and team events	Both team & Individual events / Only in Individual events	Both Individual and team events


Certificates points:- Maximum 10 points


S. No.	Position	National		Jr. National/Inter University		State/Cluster	
		Individual	Team	Individual	Team	Individual	Team
1	First	10	09	09	06	06	05
2	Second	09	08	08	05	05	04
3	Third	08	07	07	04	04	03
4	Fourth	07	06	06	03	03	02
5	Participation	06	05	05	02	02	01

Only one higher level certificate will be considered for marking. However, candidate must submit all the supporting (all level) certificates to get the benefit of the certificate.

iii) RESULT:-

- The candidates will be evaluated in 100 marks after qualifying Physical Fitness. The division of marks given above.
- If there is a tie between two or more candidates, The date of birth will be taken in to consideration to break the tie, if it still remain then alphabetical order of the candidate's name first, second, third and so....on alphabet will be consider for breaking the tie.
- Final merit will be prepared college wise and as per reservation rules.
- The final list will be displayed on University website after the approval of the University.
- The candidate must take admission within the stipulated period notified by the University in college allotted to him/her, failing which his/ her candidature will be automatically stands cancelled.


(Prof. Dinesh Kumar)
Prof. Incharge PE & Sports
& Coordinator PFT


(Prof. Rakesh Sharma)
Dean, Faculty of Education
& Coordinator PFT

**Norms & Schedule for the Physical Fitness Test (PFT) for the session 2026-27 in
B.Sc. in Health & Physical Education of affiliated college, CCS University, Meerut**

Physical Fitness test items and minimum qualifying standards for all the candidates of B.Sc. in Health & Physical Education for the session 2026-27.

- 1) 50 Meter Run-----8.00 sec for Men and 9.00 sec for Women
- 2) Standing Broad Jump-----1.65 Meter for Men and 1.15 Meter for Women
- 3) 1000 Meter Run-----5.00 Min for Men and 6.00 Min for Women
- 4) सभी अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता हेतु अपनी प्लेयिंग किट में आयेगें।
- 5) अभ्यर्थी तिथि व समय का विशेष ध्यान रखेंगें।
- 6) गर्भवती महिलाएं व दिव्यांग अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पात्र नहीं होंगें।
- 7) सभी अभ्यर्थी डॉक्टर का फिटनेस प्रमाण पत्र साथ लायेगें।
- 8) सभी अभ्यर्थी अपने ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रति साथ लायेगें।
- 9) सभी अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र की मूल व स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट साईज का फोटो साथ लायेगें।
- 10) सभी अभ्यर्थी आधार कार्ड अथवा कोई भी पहचान पत्र मूल व स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ लायेगें।


Schedule for the Physical Fitness Test for B.Sc. in Health & Physical Education


S.No.	Candidates	Dates	Reporting Time
1	Physical Fitness Test for all BScPE candidates names alphabet from A—to --O	09-09-2026	08:00 to 11:00 AM
2	Physical Fitness Test for all BScPE candidates names alphabet from P—to --Z and Previous day leftover candidates	10-09-2026	08:00 to 11:00 AM

Venue- University Sports Complex

Note:- Physical Fitness Test is the only qualifying test. The candidate must appear in all the three items; however he/she is required to qualify in two events out of three.

Submitted for approval


(Prof. Dinesh Kumar)
Prof. Incharge PE & Sports
& Coordinator PFT


(Prof. Rakesh Sharma)
Dean, Faculty of Education
& Coordinator PFT